



Delhi Building & Other Construction Worker's Welfare Board, GNCT of Delhi

Vikas Bhawan-II, N. Delhi-110054



Online Registration and Renewal of
construction workers data through e-
District Portal for public domain.

URL of e-District:-

www.edistrict.delhigovt.nic.in



Necessity/ Requirement/Advantages

1. To increase the registration / renewal.
2. To counter the limitation of staff & infrastructure
3. No waiting
4. Less time
5. To increase no. of application updation per day.
6. To meet the demand of big construction site employers to have submission of application for Registration/Renewal at site.
7. To minimize public interaction.



Online application name are
given below:-

1. Registration of Construction Worker.
2. Renewal of Construction Worker.

Process Flow of online Registration and Renewal of construction workers data through e-District Portal:-


1. Open any web browser like as Google Chrome, Internet Explorer, Firefox etc.
2. Go to e-District Portal "www.edistrict.delhigovt.nic.in".
3. Register with e-District portal through Aadhar Card.
4. After Registration, Open e-district portal again and select "Bocw Registration and Renewal services".
5. Select any service, fill complete form (enter the details) and attach mandatory documents then submit (first part).
6. After successfully submission Acknowledgment will be generated giving date and time for document verification.
7. Construction workers will appear at CSC counter of concerned District along with Acknowledgment and original documents.
8. Office staff will verify all details and original documents and will collect due fee in cash.
9. After verifying all details, application will be sent for approval by verifier.
10. After approval from Deputy Secretary / Registering Authority application will be signed digitally.
11. After signature, labour card will be handed over to Construction workers.



**Online Registration Steps
with screen shots are given
below:-**

Open any web browser like Google Chrome, IE, Firefox etc.

Step-1



Step-2 (i)

Go to e-District Portal “www.edistrict.delhigovt.nic.in”.



District Delhi

Service at doorstep.....



दिल्ली सरकार

[Home](#) [Services](#) [Downloads](#) [About Us](#) [Contact Us](#) [FAQ](#) [Feedback](#) [Theme](#)

What's New

Online application facility now available on e-District Portal.
Simplified Procedure for Certificates w.e.f. Dec 01, 2015 (Click Here).
Facilities of Mukhyamantri Tirth Yatra Services

Information

**NO VISIT!
NO QUEUE!
NO TOUT!**
1076 GOVERNMENT SERVICES NOW AT YOUR DOORS
CLICK HERE TO BOOK ONLINE

Statistics

CITIZEN'S CORNER

Registration at e-District Delhi

- New User
- Registered Users Login

List of services available at e-District Delhi

- Services
 - Search Notices
 - Revenue Courts
 - Issuance of ROR
 - Registration of Marriage
 - Right to Information (RTI)
 - Status Tracking of Recovery
 - Download and Print e-Ration Card
 - Appointment to meet with DM regarding grievances

How to apply

- FAQs
- Timelines
- Designated Officials
- Eligibility Criteria and Guidelines

G2G Services

- Track your Application
- Verify your Certificate
- Print/Download Certificate
- Locate your Sub-Division
- Register Grievances
- Track Grievances
- Apply For Certificates Online
- Download Application Forms
- Locate UIDAI Center
- Reach us at facebook

G2G Services

- Departmental Login
- Mobile Sahayak Login

Track Application By SMS



Step-2 (ii)

Registration at e-District portal

District Delhi
Service at doorstep

Home Services Downloads About Us Contact Us FAQ Feedback Theme

What's New

Online application facility now available on e-District Portal.
Simplified Procedure for Certificates w.e.f. Dec 01, 2015 (Click Here).
Facilities of Mukhyamantri Tirth Yatra Services

CITIZEN'S CORNER

Registration at e-District Delhi

- New User
- Registered Users Login

List of services available at e-District Delhi

- Services
- Search Notices
- Revenue Courts
- Issuance of ROR
- Registration of Marriage
- Right to Information (RTI)

e2C Services

- Track your Application
- Verify your Certificate
- Print/Download Certificate
- Locate your Sub-Division
- Register Grievances
- Track Grievances
- Apply For Certificates Online
- Download Application Forms

Information

दिल्ली सरकार

Step-3(i)

Register your self in e-District portal through Aadhar Card



District Delhi

Service at doorstep.....



दिल्ली सरकार

[Home](#) [Services](#) [Downloads](#) [About Us](#) [Contact Us](#) [FAQ](#) [Feedback](#) [Theme](#)

CITIZEN REGISTRATION FORM

Select Document Type:

--Select-- ▾

Enter Document No



Type the security code shown above:

Login if you are a registered user.

Step-3(ii)

E-Application to register Construction Worker with e-district

BASIC/PERSONAL DETAILS FORM

[Home](#)[Apply Online](#)[Service Specific](#)[Payment](#)[Print](#)[Custom](#)[Reports](#)[Help](#)[About](#)[Profile](#)

Name of Service

Issuing authorities of certificate

No. of processing days of service

Details of Service for Which Applying

Application for Renewal of Registered Construction Worker Authority

15 Days

Basic/Personal Details as per Registration Profile

- 1 Aadhaar Card *
- 2 Name of Applicant *
- 3 Gender *
- 4 Name of Father *
- 5 Date of Birth *
- 6 Nationality *
- 7 Present Address *
- 8 Permanent Address *
- 9 Sub Division as per Entered Locality
- 10 Mobile No. *
- 11 Name of Mother *
- 12 Name of Spouse
- 13 14 digit computerized Registration No. *





Step-3(iii)

- After submitting e-application following user ID and password message will be received by the worker on his given mobile number as well as e-mail ID if mentioned.

Step-4 (i)

Registered Users Login:-



दिल्ली सरकार

Home Services Downloads About Us Contact Us FAQ Feedback Theme

CITIZEN LOGIN FORM

User Id

Password

Forgot Userid or Password ?



C

Type the code shown:

Log in

Register if you are not a registered user.

Step-4 (ii)

After Registration, Open e-district portal and select Bocw Registration /Updation and Renewal services

58	Periodical Inspection of Electrical Installation under regulation 30 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 (Form-C)	Labour Department	30/11/2019	45	Apply
59	Online Issuance of Certificate of Boiler Manufacturer under the Boiler Act, 1923	Labour Department	30/11/2019	30	Apply
60	Renewal of certificate of boilers manufacturer	Labour Department	20/12/2019	30	Apply
61	Registration of Establishment under Inter State Migrant Workmen (RE&CS) Act, 1979	Labour Department	13/12/2019	15	Apply

BUILDING & OTHER CONSTRUCTION WORKERS AND WELFARE BOARD

62	Application for Renewal of Registered Construction Worker	Building & Other construction workers and Welfare board	16/11/2018	15	Apply
63	Application for Registration as Construction Worker (Rule 266(4)) / Renewal of Existing Manual Registrations	Building & Other construction workers and Welfare board	16/11/2018	30	Apply
	Application for Registration as Voluntary Data Updation				

Step-5 (i)

Select any service to fill complete forms and to attach mandatory documents

58	Periodical Inspection of Electrical Installation under regulation 30 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 (Form-C)	Labour Department	30/11/2019	45	Apply
59	Online Issuance of Certificate of Boiler Manufacturer under the Boiler Act, 1923	Labour Department	30/11/2019	30	Apply
60	Renewal of certificate of boilers manufacturer	Labour Department	20/12/2019	30	Apply
61	Registration of Establishment under Inter State Migrant Workmen (RE&CS) Act, 1979	Labour Department	13/12/2019	15	Apply

BUILDING & OTHER CONSTRUCTION WORKERS AND WELFARE BOARD

62	Application for Renewal of Registered Construction Worker	Building & Other construction workers and Welfare board	16/11/2018	15	Apply
63	Application for Registration as Construction Worker (Rule 266(4)) / Renewal of Existing Manual Registrations Application for Registration as Voluntary Data Update	Building & Other construction workers and Welfare board	16/11/2018	30	Apply



Home

Apply Onli

Service Speci

Paymi

Hello SANDHYA | Pr

KARMAKAR ! Cust

Repo

Log off H

Ab

Pro

BASIC/PERSONAL DETAILS FORM

Details of Service for Which Applying	
Name of Service	Application for Registration as Construction Worker (Rule 266(4)) / Voluntary Data Updation / Renewal of Existing Manual Registrations
Issuing authorities of certificate	Authority
No. of processing days of service	30 Days

Basic/Personal Details as per Registration Profile		
1	Aadhaar Card *	*****8488
2	Name of Applicant *	
3	Gender *	Female
4	Name of Father *	
5	Date of Birth *	
6	Nationality *	Indian
7	Present Address *	109/22 BANGALI COLONY TUGHLALKABAD VILLAGE Delhi
8	Permanent Address *	
9	Sub Division as per Entered Locality	South, (District: South)
10	Mobile No. *	
11	Name of Mother *	
12	Name of Spouse	

Are you a registered construction worker? *:

Continue

Edit Details

Cancel

Apply Onli

Service Speci



Hello SANDHYA KARMAKAR | Log off

FORM FOR ENTRY OF SERVICE RELATED DETAILS

BASIC/PERSONAL DETAILS	
Aadhaar Card	
Registration ID	
Name of Applicant	
Gender	
Date of Birth	
Name of Father	
Mother Name	
Mobile No.	
Present Address	
Permanent Address	
Applied For	Application for Registration as Construction Worker (Rule 256(4)) / Voluntary Data Updation / Renewal of Existing Manual Registrations
Subdivision/District of Application	South

No
Photo
AvailableAuto Filled
&
DISPLAYED

Eligibility Criteria/योग्यता मानक	
1	Every building worker who has completed eighteen years of age, but has not completed sixty years of age./प्रत्येक घर निर्माण कार्य करने वाला व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लेकिन 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो।
2	Who has been engaged in any building or other construction work for not less than ninety days during the preceding twelve months./जो पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान कम से कम नब्बे दिनों के लिए किसी भी कार्य में शामिल किया गया हो।
3	Who is not a member in any other welfare fund established under any law for the time being in force./जो किसी भी कानून के तहत स्थापित किसी अन्य कल्याण कोष में सदस्य नहीं है, जो वर्तमान में लागू है।

Personal Details/व्यक्तिगत विवरण	
1	Whether belong to SC/ST/OBC/Physically Handicapped/किस श्रेणी के व्यक्ति हैं? --Selected--
2	Marital Status/विवाहिक स्थिति * --Selected--
3	Date of Retirement (60 Years)/निवृत्ति की तिथि (60 वर्ष) *

Detail of old Employment Card/पुराने रोजगार कार्ड का विवरण	
1	ARE YOU A REGISTERED CONSTRUCTION WORKER/क्या आप एक पंजीकृत निर्माण कार्यकर्ता हैं? * No/नहीं

ENTRY FORM FOR DETAILS RELATED TO APPLICATION FOR REGISTRATION AS CONSTRUCTION WORKER (RULE 256(4))/निर्माण कार्यकर्ता के रूप में पंजीकरण का आवेदनपत्र (विवरण के लिए प्रवेश फॉर्म (नियम 256 (4))

(Details of work/work place and Employer/Contractor along with Employment detail for not 90 days)/(90 दिनों के लिए रोजगार के विवरण के साथ कार्यस्थल/आपूर्तिकर्ता के साथ रोजगार/निर्माण के विवरण)

1	Nature of Work category of the applicant/आवेदक की कार्य श्रेणी की प्रकृति * --Select--
2	Locality of Workplace where Construction Worker was lastly Employed/निर्माण कार्य स्थल * --Select--
3	Address of Workplace where Construction Worker was lastly Employed/निर्माण कार्य स्थल का पता (पूरवर्ती 12 महीनों में) *
4	Name of the Employer/Contractor with whom lastly employed(in the preceding 12 months)/निर्माण/आपूर्तिकर्ता का नाम, जिसके साथ अंतिम रूप से नियोजित किया गया है (पूर्ववर्ती 12 महीनों में) *
5	Total number of days worked as construction worker with last Employer/Contractor (in the preceding 12 months)/निर्माण/आपूर्तिकर्ता के साथ काम की गई दिनों की कुल संख्या (पूर्ववर्ती 12 महीनों में) * Days
6	Address of the Employer/Contractor with whom lastly employed(in the preceding 12 months)/निर्माण/आपूर्तिकर्ता का पता जिसके साथ अंतिम रूप से नियोजित किया गया है (पूर्ववर्ती 12 महीनों में) *
7	Email id of the Employer/Contractor with whom lastly employed(in the preceding 12 months)/निर्माण/आपूर्तिकर्ता का ईमेल आईडी जिसके साथ अंतिम रूप से नियोजित किया गया है (पूर्ववर्ती 12 महीनों में) *
8	Mobile No of the Employer/Contractor with whom lastly employed(in the preceding 12 months)/निर्माण/आपूर्तिकर्ता का मोबाइल नंबर जिसके साथ अंतिम रूप से नियोजित किया गया है (पूर्ववर्ती 12 महीनों में) *
9	Nature of the Workplace where Construction Worker was lastly working/निर्माण कार्य स्थल की प्रकृति जिसके साथ अंतिम रूप से काम किया गया * --Select--

Bank Details (Account Must be Aadhaar Seeded)/बैंक विवरण (खाता आधार से जुड़ना आवश्यक है)	
1	Name of Applicant as per the Bank Account/बैंक खाते के अनुसार आवेदक का नाम *
2	Account No./खाता नंबर *
3	MICR Code/MICR कोड *
4	IFSC Code/IFSC कोड *
5	Bank Name/बैंक का नाम *
6	Branch Name and Address/शाखा का नाम और पता *

Detail of Registered Union working in Construction Sector where the applicant is a member/निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले पंजीकृत संघ का विवरण जहां आवेदक एक सदस्य है	
1	Whether applicant is Registered Member of any Registered Union working in Construction Sector/क्या आवेदक निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी भी पंजीकृत संघ का पंजीकृत सदस्य है *
2	ESI No./ESI नंबर *
3	ESI Code *

Detail of Membership with other State/UT's BOCWW Board/अन्य राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के BOCWW बोर्ड के साथ सदस्यता का विवरण

Whether applicant is a member of any other State/UT's building construction Worker's welfare Board/का आवेदनकर्ता अन्य राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का सदस्य है * :-

--Select--

© Disclaimer: Designed, developed and hosted by National Informatics Centre (NIC). Contents owned and maintained by Department of Revenue, Govt. of NCT of Delhi.
NIC is not responsible for any in-accuracy in the data of this site.
Website should be viewed in 1024 by 768 screen resolution in IE 8+, Firefox 3+ and Chrome 4+

Details of Family members of the Applicant/आवेदक के परिवार के सदस्यों का विवरण

S No./क्रम सं.	Aadhaar No./आधार संख्या *	Name/नाम *	Relation with Member/सदस्य के साथ संबंध *	Date of Birth (DD/MM/YYYY)/जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) *	Sex/लिंग *	Photo of Family Member/परिवार के सदस्य की फोटो *
1			--Select--		--Select--	Browse...
2			--Select--		--Select--	Browse...

+ Add Row/रॉय जोड़ें

Details of the Nominees in percentage % for receiving the payments in case of Death of Applicant/आवेदक की मृत्यु के मामले में भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रतिशत % में नामांकित व्यक्तियों का विवरण

Note*-Except in the cases of funeral the following method will be adopted./नोट * - अतिरिक्त मामले के अलावा नीचे दी गई विधि अपनवाई जाएगी।

1. Application to be submitted by each nominee separately to receive the benefit./प्रति व्यक्ति नामांकित व्यक्ति द्वारा अलग अलग से आवेदन देना होगा।

2. On receipt of application, only the declared percentage of share would be released to the applicant./आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को केवल घोषित प्रतिशत शेयर ही दिया जाएगा।

3. The funeral benefit will be given to the first applicant./मृत्यु भत्ता आवेदक को ही दिया जाएगा।

I nominate the following person/persons to receive all payments from my account in the event of my death./मैं अपनी मृत्यु की स्थिति में मेरे खाते से भुगतान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को नामांकित करता हूँ।

S No./क्रम सं.	Aadhaar No. of Nominee/नामांकित व्यक्ति का आधार संख्या *	Name of Nominee/नामांकित व्यक्ति का नाम *	Address of Nominee/नामांकित व्यक्ति का पता *	Sex/लिंग *	Relation with Member/सदस्य के साथ संबंध *	DOB of Nominee (DD/MM/YYYY)/नामांकित व्यक्ति का जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) *	% of amount to be given/दे जाने वाली राशि का प्रतिशत % *
1				--Select--	--Select--		

+ Add Row/रॉय जोड़ें

Details of Children Studying in the School/Institute/Collage/University for which Education Assistance Require/स्कूल / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का विवरण जिसके लिए शिक्षा सहायता की आवश्यकता है।

Note*- This Assistance will be given only for two children./नोट * - इस सहायता केवल दो बच्चों के लिए दी जाएगी।

S No./क्रम सं.	Aadhaar No./आधार संख्या *	Name of Children/बच्चों का नाम *	Date of Birth (DD/MM/YYYY)/जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) *	Sex/लिंग *	Class/Section/कक्षा/अवस्था *	School Code/स्कूल कोड *	Name of School/विद्यालय का नाम *	Address of School/स्कूल का पता *
1				--Select--	--Select--			

+ Add Row/रॉय जोड़ें

NOTE:

- Fields marked with * (asterisk) are mandatory.
- The applicant should check the details from their eligibility prior to entry for processing of further application.
- The Modification in Service Specific Details can be performed at Final Preview of the Application Prior to Final Submit.



Home
Service :
P

Hello SANDHYA | Log off

KARMAKAR !

FORM FOR UPLOADING OF THE SUPPORTING DOCUMENTS

BASIC/PERSONAL DETAILS	
Aadhaar Card	
Registration ID	
Name of Applicant	
Gender	
Date of Birth	
Name of Father	
Mother Name	
Mobile No.	
Present Address	
Permanent Address	
Applied For	Application for Registration as Construction Worker (Rule 266(4)) / Voluntary Data Update / Renewal of Existing Manual Registrations
Subdivision/District of Application	
NOTE: For any kind of modification in above basic/personal details, kindly delete it and re-apply the service.	

No
Photo
Available

AUTO FILLED
&
DISPLAYED

List of Supporting Documents for Self					
S.No.	Category of Document	Type of Document	Message / Information	Whether Details of data recieved from concerned department	Upload Enclosure
1	Self-Declaration *			✗	View Modify
2	Proof of Present Address *			✓	View Modify
3	Proof of Date of Birth *			✓	View Modify
4	Bank Account Proof *			✗	View Modify
5	Employment Certificate issued by Employer (including Contractor)/Union of Construction Sector/ALC/Self Declaration of Employment Certificate *			✗	View Modify
6	Self Attested Copy of Aadhaar Card *			✓	View Modify
Description: *WNA - Web Service Not Implemented *WNR - Web Service Not Responding *DDV - Document Found on Server *DNP - Document Not Found on Server *DVP - Document Verification Pending on Server					

NOTE:

- Fields marked with * (asterisk) are mandatory.
- The applicant should check the scanned document from thier feigibility prior to upload for processing of further application.
- The Modification in Service Specific Details and Supporting Documents can be performed at Final Preview of the Application Prior to Final Submit.

Continue to Next



Hello SANDHYA | Log off

KARMAKAR !

FORM FOR CAPTURING/UPLOAD PHOTOGRAPHS OF THE APPLICANT UNDER E-DISTRICT DELHI

BASIC/PERSONAL DETAILS	
Aadhaar Card	
Registration ID	
Name of Applicant	
Gender	
Date of Birth	
Name of Father	
Mother Name	
Mobile No.	
Present Address	
Permanent Address	
Applied For	Application for Registration as Construction Worker (Rule 286(4)) / Voluntary Data Update / Renewal of Existing Manual Registrations
Subdivision/District of Application	

NOTE: For any kind of modification in above basic/personal details, kindly delete it and re-apply the service.

No
Photo
Available

Kindly Upload/Modify Photo

Photo Type	Self
Current Photo of Self	No Photo Available

GUIDELINES FOR THE CAPTURING/UPLOADING OF PHOTOGRAPH

- Passport size coloured photograph in plain white or off-white background of size - 5cm X 4.5cm Or 2"x1.75".
- The size of photograph should not exceed 50KB in jpg/jpeg format.
- The photo should include full face, front view and open eyes without sunglasses or hats
- Photo should be of full head from top of hair to shoulders
- Face in photo should have a natural expression (closed mouth)

Applicant Photo Capture*

☒ Capture ☐ Upload

Browse...

© Disclaimer: Designed, developed and hosted by National Informatics Centre (NIC). Contents owned and maintained by Department of Revenue, Govt. of NCT of Delhi.
NIC is not responsible for any in-accuracy in the data of this site.
Website should be viewed in 1024 by 768 screen resolution in IE 8+, Firefox 3+ and Chrome 4+



Hello SANDHYA | Log off

KARMAKAR!

VERIFY APPLICATION DETAILS BEFORE FINAL SUBMIT/PAYMENT

BASIC/PERSONAL DETAILS	
Aadhaar Card	
Registration ID	
Name of Applicant	
Gender	
Date of Birth	
Name of Father	
Mother Name	
Mobile No.	
Present Address	
Permanent Address	
Applied For	Application for Registration as Construction Worker (Rule 266(4)) / Voluntary Data Update / Renewal of Existing Manual Registrations
Subdivision/District of Application	

NOTE: For any kind of modification in above basic/personal details, kindly delete it and re-apply the service.

APPLICATION FOR REGISTRATION AS CONSTRUCTION WORKER		Edit
Personal Details/व्यक्तिगत विवरण		
1	Category/श्रेणी:	
2	Martial Status/वैवाहिक स्थिति:	
3	Date of Retirement/पेंशन/निराकरण की तारीख	
Detail of old Employment Card/पुराने रोजगार कार्ड का विवरण		
4	Are you a registered construction worker?/क्या आप एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं?	No
Details of work/work place and Employer/Contractor along with Employment detail for not 90 days/(90 दिनों के लिए रोजगार के विवरण के साथ कार्य / कार्य स्थल और नियोक्ता / ठेकेदार के विवरण)		
5	Nature of Work category of the applicant/आवेदक की कार्य श्रेणी की प्रकृति	
6	Locality of Workplace where construction worker was working/कार्यस्थल का स्थान	
7	Address of Workplace where construction worker was working/कार्यस्थल का पता जहाँ नियोक्त श्रमिक काम कर रहा था	
8	Name of the Employer/Contractor with whom lastly employed (in the preceeding 12 months)/नियोक्ता / ठेकेदार का नाम, जिसके साथ अंतिम रूप से नियोजित किया गया है (पूर्ववर्ती 12 माहों में)	
9	Total number of days worked as construction worker with last Employer/Contractor (in the preceeding 12 months)/अंतिम नियोक्ता / ठेकेदार के साथ नियोक्त श्रमिक के रूप में काम करने वाले दिनों की कुल संख्या (पूर्ववर्ती 12 माहों में)	
10	Address of the Employer/Contractor with whom lastly employed (in the preceeding 12 months)/नियोक्ता/ठेकेदार का पता जिसके साथ अंतिम रूप से नियोजित किया गया था (पूर्ववर्ती 12 माहों में)	
11	Mobile No. of the Employer/Contractor with whom lastly employed (in the preceeding 12 months)/नियोक्ता / ठेकेदार का मोबाइल नंबर जिसके साथ अंतिम रूप से नियोजित किया गया है (पूर्ववर्ती 12 माहों में)	
12	Nature of Workplace where Construction Worker was working/कार्यस्थल की प्रकृति जहाँ नियोक्त श्रमिक काम कर रहा था	
Bank Details (Account Must be Aadhaar Seeded)/बैंक विवरण (खाता आधार से जुड़े हुए होना चाहिए)		
13	Name of Applicant as per the Bank Account/बैंक खाते के अनुसार आवेदक का नाम	
14	Account No./खाता संख्या	

15	MICR Code/MICR कोड:	
16	IFSC Code/IFSC कोड	
17	Bank Name/बैंक का नाम:	
18	Branch Name and Address/शाखा का नाम और पता:	

Detail of Registered Union working in Construction Sector where the applicant is a member/निर्वाह क्षेत्र में कार्य कर रहे पंजीकृत संघ का विवरण

Home
Service :
P

© Disclaimer: Designed, developed and hosted by National Informatics Centre (NIC). Contents owned and maintained by Department of Revenue, Govt. of NCT of Delhi.
NIC is not responsible for any in-accuracy in the data of this site.
Website should be viewed in 1024 by 768 screen resolution in IE 8+, Firefox 3+ and Chrome 4+

Step-5 (ii)

Detail of Supporting Documents

Home Service **>** Objections **>** Help **>** About **>** Profile **>**

List of Supporting Documents for Self					
S.No.	Category of Document	Type of Document	Message / Information	Whether Details of data received from concerned department	Upload Enclosure
1	Self-Declaration *	Self Declaration	**1111	WNA 	View Upload New Copy
2	Proof of Present Address *	--	**	--	Upload
3	Proof of Date of Birth *	--	**	--	Upload
4	Bank Account Proof *	--	**	--	Upload
5	Employment Certificate issued by Employer(Including Contractor)/Union of Construction Sector/ALC/Self Declaration of Employment Certificate *	--	**	--	Upload
6	Self Attested Copy of Aadhaar Card *	--	**	--	Upload
7		--	**	--	Upload
Description: *WNA - Web Service Not Implemented *WNR - Web Service Not Responding *DDV - Document Found on Server *DNV - Document Not Found on Server *DVP - Document Verification Pending on Server					

8. Photo

[Upload](#)

Step-6

Data recheck

Tap “Submit”

OTP generated and sent to mobile number
already furnished.

To fill OTP no.

Final submission for generation of
acknowledgement



Hello

SANDHYA

KARMAKAR !

| [Log off](#)[Home](#)[Apply Online](#) ▾[Service Specific](#) ▾[Payment](#) ▾[Print](#) ▾[Custom](#) ▾[Reports](#) ▾[Help](#) ▾[About](#) ▾[Profile](#) ▾**FORM FOR FINAL SUBMIT**

Application ID	
Applicant Name	
Mobile No	
Email Id	
Service Name	Application for Registration as Construction Worker (Rule 266(4)) / Voluntary Data Updation / Renewal of Existing Manual Registrations
OTP	

[Submit](#)[18 Resent OTP](#)

This page will expire in 9:53 minutes.
Do not close your browser or press the back or refresh button.

© **Disclaimer:** Designed, developed and hosted by National Informatics Centre (NIC). Contents owned and maintained by Department of Revenue, Govt. of NCT of Delhi.

NIC is not responsible for any in-accuracy in the data of this site.

Website should be viewed in 1024 by 768 screen resolution in IE 8+, Firefox 3+ and Chrome 4+

Step-8 Construction worker will appear at CSC counter of concerned District along with Acknowledgment and original documents.

Step-9 Office staff will verify all details, original documents and will collect due fee in cash.

Step-10 After verifying all details, application will be sent for approval by verifier.

Step-11 After approval from Deputy Secretary / Registering Authority, application will be signed digitally.

Step-12 After signature, Labour Cards will be handed over to the Construction workers or can be downloaded anywhere.

Thanks

